

भाग —I**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 नवम्बर, 2019

संख्या लैज 35/2019.— दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (सेकन्ड अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2019 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 04 नवम्बर, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 34**हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019****हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,****को आगे संशोधित करने के लिए****अधिनियम**

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो:—

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है। | संक्षिप्त नाम। |
| 2. | हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 की उपधारा (4) के परन्तुक में, "चार वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 10 अक्टूबर, 2008 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। | 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 4 का संशोधन। |
| 3. | मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) में,— | 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 52 का संशोधन। |
| | (i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":", चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा | |
| | (ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :— | |
| | "परन्तु उपरोक्त अधिवेशन के अतिरिक्त, प्रत्येक निगम, कम से कम तीन दिन की अवधि के लिए प्रत्येक छह मास में कम से कम एक अधिवेशन करेगा।" | |

मीनाक्षी आई० मेहता,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।